



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़ 1932 (श0)
(सं0 पटना 478) पटना, मंगलवार, 13 जुलाई 2010

विधि विभाग

अधिसूचना

8 जुलाई 2010

एस0ओ0 136, दिनांक 13 जुलाई 2010—दिनांक 06 जुलाई 2010 को राज्य मंत्रिपरिषद् की हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ राजकीय अधिवक्ता संख्या-9 के पद पर नियुक्त श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में माननीय न्यायमूर्ति के रूप में पद ग्रहण करने के फलस्वरूप रिक्त पद पर श्री मो0 एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, स्थायी सलाहकार संख्या-17 को नियुक्त किया जाता है। सरकारी वकील संख्या-9 श्रीमती अनिता सिन्हा द्वारा पद त्याग किये जाने के फलस्वरूप रिक्त पद पर श्रीमती नम्रता मिश्र, अधिवक्ता को सरकारी वकील संख्या-9 के पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री प्रशान्त प्रताप, अधिवक्ता को स्थायी सलाहकार संख्या-17 के रिक्त पद पर तथा श्री अजय, स्थायी सलाहकार संख्या-3 (सिलिंग) को स्थायी सलाहकार संख्या-24 के पद पर नियुक्त किया जाता है।

(2) इस प्रकार स्थायी सलाहकार संख्या-3 (सिलिंग) का पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3. यह नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए होगी तथा उक्त विधि पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण की तिथि से यह आदेश प्रभावी होगा।

4. उपरोक्त विधि पदाधिकारियों को विधि विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्धारित शुल्कादि देय होगा।

(सं०सं०-सी०/ई०एच०-38/2000/2942/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 478-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>